

आवश्यकता

पद: जूनियर फार्मासिस्ट

अर्थ जन स्वास्थ्य के मुद्दों पर वर्ष 1997 से कार्य कर रही एक गैर-सरकारी संस्था है। संस्था जनस्वास्थ्य के मुद्दों पर दक्षिणी राजस्थान में सक्रिय है व समय-समय पर राज्य के अन्य भागों में भी कार्य करती आई है। कोरोना वैश्विक महामारी के समुदाय स्तर पर प्रबंधन के लिए संस्था दक्षिणी राजस्थान में परियोजना क्रियान्वित कर रही है, जिसमें जूनियर फार्मासिस्ट पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की आवश्यकता है।

संस्था इस पद के लिए इच्छुक व दक्ष उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करती है। वह संस्था के स्वास्थ्य केंद्र व ग्रामीण शिविर के लिए दवाओं की खरीद, भण्डारण और वितरण के कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे व प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्तापूर्वक उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

जूनियर फार्मासिस्ट को कार्यस्थल अर्थ स्वास्थ्य केंद्र के गाँव ईसवाल या निकट गाँव में निवास करना अनिवार्य होगा तथा परियोजना क्षेत्र जिला उदयपुर व राजसमंद में कार्य करने के लिए यात्रा करना आवश्यक होगा। इस पद के लिए प्रमुख जिम्मेदारियां व कौशल निम्न दिए गए हैं:

- मरीजों को डॉक्टर की पर्ची अनुसार दवा के प्रयोग के बारे में उचित सलाह देना
- दवाओं की मांग अनुसार आपूर्ति का मैनेजर, सप्लाई चैन के साथ मिलकर सुनिश्चित करना
- दवाओं का उचित भण्डारण व सम्बंधित व्यवस्थाओं का प्रबंधन
- दवाओं की क्रय प्रक्रिया में गुणवत्ता मानकों व सम्बंधित नियम-कानून से अवगत करवाना
- लिखित व मौखिक संवाद में कुशलता
- टीम के साथ समन्वय स्थापित लक्षित कार्यों को पूर्ण करना
- कंप्यूटर दक्षता: डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, इंटरनेट व ईमेल के प्रयोग में दक्ष

आवश्यक शैक्षणिक योग्यता व अनुभव: डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद कम से कम 2 वर्षों का फार्मासिस्ट के रूप में अनुभव तथा राजस्थान फार्मेसी कॉउन्सिल से फार्मासिस्ट का लाइसेंस आवश्यक है।

आवेदन फॉर्म: <https://www.arth.in/jobs-at-arth/job-application-form>

आवेदन की अंतिम तिथि: 20 दिसंबर 2021

आवेदन ईमेल द्वारा भेजें: hr@arth.in